

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216101
SG-DL-E-12022020-216101

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|--------|--|---------------------------|
| सं. 9] | दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941 | [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 373 |
| No. 9] | DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941 | [N.C.T.D. No. 373 |

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

स.मु.चु.अ./चु.सं./102(55)/डी.एल.ए.-20/2020/30926.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

I 308@fnYyh&fo0l 0@2020& यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा 14 जनवरी, 2020 को जारी अधिसूचना सं० स०मु०चु०अ०/चु०सं०/102 (22)/डी०एल०ए०-20/2019/8767 के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के लिए एक नई विधान सभा के गठन के लिए एक साधारण निर्वाचन कराया गया है; और

यतः उक्त साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों द्वारा घोषित किए जा चुके हैं;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दल सम्बद्धता, यदि कोई हो सहित, निर्वाचित सदस्यों के नाम, एतद्वारा अधिसूचना की अनुसूची में अधिसूचित करता है।

Hkkj r fuokpu vk; kx dh vf/kI ipuk l 0 l 0 308@fnYyh&fo0l 0@2020
fnukad% 12 Qjoh 2020 dh vuq iph
jkt; dk uke% jk"Vh; jkt/kkuh jkt; {ks=} fnYyh

| विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम | निर्वाचित सदस्य का नाम | सम्बद्ध दल (यदि कोई हो) |
|--|------------------------|-------------------------|
| 1. नरेला | शरद कुमार | आम आदमी पार्टी |
| 2. बुराड़ी | संजीव झा | आम आदमी पार्टी |
| 3. तिमारपुर | दिलीप पाण्डेय | आम आदमी पार्टी |
| 4. आदर्श नगर | पवन शर्मा | आम आदमी पार्टी |
| 5. बादली | अजेश यादव | आम आदमी पार्टी |
| 6. रिठाला | महेन्द्र गोयल | आम आदमी पार्टी |
| 7. बवाना (अ0जा0) | जय भगवान | आम आदमी पार्टी |
| 8. मुन्डका | धर्मपाल लाकड़ा | आम आदमी पार्टी |
| 9. किरारी | ऋतुराज गोविन्द | आम आदमी पार्टी |
| 10. सुल्तानपुर माजरा (अ0जा0) | मुकेश कुमार अहलावत | आम आदमी पार्टी |
| 11. नांगलोई जाट | रघुविन्द्र शौकीन | आम आदमी पार्टी |
| 12. मंगोल पुरी (अ0जा0) | राखी बिरला | आम आदमी पार्टी |
| 13. रोहिणी | विजेन्द्र गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी |
| 14. शालीमार बाग | बंदना कुमारी | आम आदमी पार्टी |
| 15. शकूर बस्ती | सत्येन्द्र जैन | आम आदमी पार्टी |
| 16. त्रिनगर | प्रीति तोमर | आम आदमी पार्टी |
| 17. वजीर पुर | राजेश गुप्ता | आम आदमी पार्टी |
| 18. माडल टाउन | अखिलेश पति त्रिपाठी | आम आदमी पार्टी |
| 19. सदर बाजार | सोम दत्त | आम आदमी पार्टी |
| 20. चौदनी चौक | प्रहलाद सिंह साहनी | आम आदमी पार्टी |
| 21. मटिया महल | शुऐब इकबाल | आम आदमी पार्टी |
| 22. बल्लीमारन | इमरान हुसैन | आम आदमी पार्टी |
| 23. करोल बाग (अ0जा0) | विशेष रवि | आम आदमी पार्टी |
| 24. पटेल नगर (अ0जा0) | राज कुमार आनन्द | आम आदमी पार्टी |
| 25. मोती नगर | शिव चरण गोयल | आम आदमी पार्टी |
| 26. मादी पुर (अ0जा0) | गिरीश सोनी | आम आदमी पार्टी |
| 27. राजौरी गार्डन | अ धनवती चंदीला अ | आम आदमी पार्टी |
| 28. हरि नगर | राजकुमारी ढिल्लो | आम आदमी पार्टी |
| 29. तिलक नगर | जरनैल सिंह | आम आदमी पार्टी |
| 30. जनक पुरी | राजेश ऋषि | आम आदमी पार्टी |
| 31. विकास पुरी | महिन्द्र यादव | आम आदमी पार्टी |
| 32. उत्तम नगर | नरेश बाल्यान | आम आदमी पार्टी |
| 33. द्वारका | विनय मिश्रा | आम आदमी पार्टी |
| 34. मटिआला | गुलाब सिंह | आम आदमी पार्टी |
| 35. नजफगढ़ | कैलाश गहलोत | आम आदमी पार्टी |
| 36. बिजवासन | भुपेन्द्र सिंह जून | आम आदमी पार्टी |
| 37. पालम | भावना गौड़ | आम आदमी पार्टी |
| 38. दिल्ली छावनी | विवेन्द्र सिंह कादियान | आम आदमी पार्टी |
| 39. राजिन्द्र नगर | राघव चड्ढा | आम आदमी पार्टी |
| 40. नई दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | आम आदमी पार्टी |
| 41. जंगपुरा | प्रवीण कुमार | आम आदमी पार्टी |
| 42. कस्तूरबा नगर | मदन लाल | आम आदमी पार्टी |
| 43. मालवीय नगर | सोमनाथ भारती | आम आदमी पार्टी |
| 44. आर0के0 पुरम | प्रमिला टोकस | आम आदमी पार्टी |
| 45. महरौली | नरेश यादव | आम आदमी पार्टी |
| 46. छतरपुर | करतार सिंह तंवर | आम आदमी पार्टी |
| 47. देवली(अ0जा0) | प्रकाश @ प्रकाश जारवाल | आम आदमी पार्टी |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| 48. अम्बेडकर नगर (अ0जा0) | अजय दत्त | आम आदमी पार्टी |
| 49. संगम विहार | दिनेश मोहनिया | आम आदमी पार्टी |
| 50. ग्रेटर कैलाश | सौरभ भारद्वाज | आम आदमी पार्टी |
| 51. कालकाजी | आतिशी | आम आदमी पार्टी |
| 52. तुंगलकाबाद | सहीराम | आम आदमी पार्टी |
| 53. बदरपुर | रामवीर सिंह बिधूडी | भारतीय जनता पार्टी |
| 54. ओखला | अमानतुल्लाह खान | आम आदमी पार्टी |
| 55. त्रिलोकपुरी (अ0जा0) | रोहित कुमार | आम आदमी पार्टी |
| 56. कोण्डली(अ0जा0) | कुलदीप कुमार | आम आदमी पार्टी |
| 57. पटपड़गंज | मनीष सिसोदिया | आम आदमी पार्टी |
| 58. लक्ष्मी नगर | अभय वर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 59. विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 60. कृष्णा नगर | एस. के. बग्गा (एडवोकेट) | आम आदमी पार्टी |
| 61. गाँधी नगर | अनिल कुमार बाजपेयी | भारतीय जनता पार्टी |
| 62. शाहदरा | रामनिवास गोयल | आम आदमी पार्टी |
| 63. सीमापुरी (अ0जा0) | राजेन्द्र पाल गौतम | आम आदमी पार्टी |
| 64. रोहतास नगर | जितेन्द्र महाजन | भारतीय जनता पार्टी |
| 65. सीलमपुर | अब्दुल रहमान | आम आदमी पार्टी |
| 66. घोण्डा | अजय महावर | भारतीय जनता पार्टी |
| 67. बाबरपुर | गोपाल राय | आम आदमी पार्टी |
| 68. गोकलपुर (अ0जा0) | सुरेन्द्र कुमार | आम आदमी पार्टी |
| 69. मुस्तफाबाद | हाजी यूनुस | आम आदमी पार्टी |
| 70. करावल नगर | मोहन सिंह बिष्ट | भारतीय जनता पार्टी |

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश द्वारा

डॉ. रणवीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 12th February, 2020

No. CEO/COE/102(55)/DLA-20/2020/30926.—The following is published for general information :—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2020

No. 308/DL-LA/2020.—Whereas, in pursuance of Notification No. CEO/COE/102(22)/DLA-20/2019/8766, issued by the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi on 14th January 2020, under Sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the National Capital Territory of Delhi; and

Whereas, the results of the elections in all Assembly Constituencies in the said General Election, have been declared by the Returning Officers concerned;

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the names of the Members elected for these constituencies, along with their party affiliation, if any, in the SCHEDULE to the Notification.

SCHEDULE TO NOTIFICATION NO. 308/DL-LA/2020, DATED 12th February, 2020

OF

THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Name of the State: National Capital Territory of Delhi

| No. & Name of Assembly Constituency | Name of the Elected Member | Party Affiliation (if any) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1- Nerela | Sharad Kumar | Aam Aadmi Party |
| 2- Burari | Sanjeev Jha | Aam Aadmi Party |
| 3- Timarpur | Dilip Pandey | Aam Aadmi Party |
| 4- Adarsh Nagar | Pawan Sharma | Aam Aadmi Party |
| 5- Badli | Ajesh Yadav | Aam Aadmi Party |
| 6- Rithala | Mohinder Goyal | Aam Aadmi Party |
| 7- Bawana (SC) | Jai Bhagwan | Aam Aadmi Party |
| 8- Mundka | Dharampal Lakra | Aam Aadmi Party |
| 9- Kirari | Rituraj Govind | Aam Aadmi Party |
| 10- Sultan Pur Majra (SC) | Mukesh Kumar Ahlawat | Aam Aadmi Party |
| 11- Nangloi Jat | Raghuvinder Shokeen | Aam Aadmi Party |
| 12- Mangol Puri (SC) | Rakhi Birla | Aam Aadmi Party |
| 13- Rohini | Vijender Gupta | Bharatiya Janata Party |
| 14- Shalimar Bagh | Bandana Kumari | Aam Aadmi Party |
| 15- Shakur Basti | Satyendar Jain | Aam Aadmi Party |
| 16- Tri Nagar | Preeti Tomar | Aam Aadmi Party |
| 17- Wazirpur | Rajesh Gupta | Aam Aadmi Party |
| 18- Model Town | Akhilesh Pati Tripathi | Aam Aadmi Party |
| 19- Sadar Bazar | Som Dutt | Aam Aadmi Party |
| 20- Chandni Chowk | Parlad Singh Sawhney | Aam Aadmi Party |
| 21- Matia Mahal | Shoaib Iqbal | Aam Aadmi Party |
| 22- Ballimaran | Imran Hussain | Aam Aadmi Party |
| 23- Karol Bagh (SC) | Vishesh Ravi | Aam Aadmi Party |
| 24- Patel Nagar (SC) | Raaj Kumar Anand | Aam Aadmi Party |
| 25- Moti Nagar | Shiv Charan Goel | Aam Aadmi Party |
| 26- Madipur (SC) | Girish Soni | Aam Aadmi Party |
| 27- Rajouri Garden | A Dhanwati Chandela A | Aam Aadmi Party |
| 28- Hari Nagar | Raj Kumari Dhillon | Aam Aadmi Party |
| 29- Tilak Nagar | Jarnail Singh | Aam Aadmi Party |
| 30- Janakpuri | Rajesh Rishi | Aam Aadmi Party |
| 31- Viaspuri | Mahinder Yadav | Aam Aadmi Party |
| 32- Uttam Nagar | Naresh Balyan | Aam Aadmi Party |
| 33- Dwarka | Vinay Mishra | Aam Aadmi Party |
| 34- Matiala | Gulab Singh | Aam Aadmi Party |
| 35- Najafgarh | Kailash Gahlot | Aam Aadmi Party |
| 36- Bijwasan | Bhupinder Singh Joon | Aam Aadmi Party |
| 37- Palam | Bhavna Gaur | Aam Aadmi Party |
| 38- Delhi Cantt | Virender Singh Kadian | Aam Aadmi Party |
| 39- Rajinder Nagar | Raghav Chadha | Aam Aadmi Party |
| 40- New Delhi | Arvind Kejriwal | Aam Aadmi Party |
| 41- Jangpura | Praveen Kumar | Aam Aadmi Party |
| 42- Kasturba Nagar | Madan Lal | Aam Aadmi Party |
| 43- Malviya Nagar | Somnath Bharti | Aam Aadmi Party |
| 44- R.K. Puram | Pramila Tokas | Aam Aadmi Party |
| 45- Mehrauli | Naresh Yadav | Aam Aadmi Party |
| 46- Chhatarpur | Kartar Singh Tanwar | Aam Aadmi Party |
| 47- Deoli (SC) | Prakash @ Prakash Jarwal | Aam Aadmi Party |
| 48- Ambedkar Nagar (SC) | Ajay Dutt | Aam Aadmi Party |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 49- Sangam Vihar | Dinesh Mohaniya | Aam Aadmi Party |
| 50- Greater Kailash | Saurabh Bharadwaj | Aam Aadmi Party |
| 51- Kalkaji | Atishi | Aam Aadmi Party |
| 52- Tughlakabad | Sahiram | Aam Aadmi Party |
| 53- Badarpur | Ramvir Singh Bidhuri | Bharatiya Janata Party |
| 54- Okhla | Amanatullah Khan | Aam Aadmi Party |
| 55- Trilokpuri (SC) | Rohit Kumar | Aam Aadmi Party |
| 56- Kondli (SC) | Kuldeep Kumar | Aam Aadmi Party |
| 57- Patparganj | Manish Sisodia | Aam Aadmi Party |
| 58- Laxmi Nagar | Abhay Verma | Bharatiya Janata Party |
| 59- Vishwas Nagar | Om Prakash Sharma | Bharatiya Janata Party |
| 60- Krishna Nagar | S. K. Bagga (Advocate) | Aam Aadmi Party |
| 61- Gandhi Nagar | Anil Kumar Bajpai | Bharatiya Janata Party |
| 62- Shahdara | Ram Niwas Goel | Aam Aadmi Party |
| 63- Seemapuri (SC) | Rajendra Pal Gautam | Aam Aadmi Party |
| 64- Rohtas Nagar | Jitender Mahajan | Bharatiya Janata Party |
| 65- Seelam Pur | Abdul Rehman | Aam Aadmi Party |
| 66- Ghonda | Ajay Mahawar | Bharatiya Janata Party |
| 67- Babarpur | Gopal Rai | Aam Aadmi Party |
| 68- Gokalpur (SC) | Surendra Kumar | Aam Aadmi Party |
| 69- Mustafabad | Haji Yunus | Aam Aadmi Party |
| 70- Karawal Nagar | Mohan Singh Bisht | Bharatiya Janata Party |

By Order,
 AJOY KUMAR, Secy.

By Order,
 Dr. RANBIR SINGH, Chief Electoral Officer, Delhi